

July 11, 2025

Online intimation/submission

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001
Security Code: 505200

The Secretary
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1,
G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai-400 051
Symbol: EICHERMOT

Subject: Newspaper Advertisement- 43rd Annual General Meeting of the Company

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisements published today i.e. July 11, 2025, in Business Standard, English (All Editions) and Business Standard, Hindi (New Delhi Edition), in connection with information related to 43rd Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, August 21, 2025 at 1:00 P.M. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

The above information is also available on the website of the Company www.eichermotors.com

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,
For **Eicher Motors Limited**

Atul Sharma
Company Secretary
Encl.: as above

**EICHER MOTORS LIMITED**

CIN : L34102DL1982PLC129877

Registered Office: Office number 1111, 11th Floor, Ashoka Estate,
Plot Number 24, Barakhamba Road, New Delhi - 110001**Telephone:** +91 11 41095173**Corporate Office:** #96, Sector 32, Gurugram - 122001, Haryana**Telephone:** +91 124 4445070**Email:** investors@eichermotors.com**Website:** www.eichermotors.com**43rd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD
THROUGH VIDEO CONFERENCING**

Notice is hereby given that the **43rd Annual General Meeting (AGM)** of members of **Eicher Motors Limited** ("the Company") is scheduled to be held on **Thursday, August 21, 2025, at 1.00 P.M. IST** through Video Conferencing (VC) in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR) Regulation, 2015 and circulars issued thereunder. The Notice of the AGM shall be dispatched in due course, containing the business items proposed for approval of the shareholders along with detailed instructions for joining AGM through Video Conferencing.

Members holding shares in physical form and who have not registered their email ids/bank account details, are requested to visit <https://web.in.mpms.mufig.com/KYC/index.html> portal of MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited), Registrar & Share Transfer Agent of the Company (RTA) and register their email ids and other details, in order to receive a copy of AGM Notice, Annual Report and login details for remote voting/e-voting through email. Shareholders holding shares in demat form are requested to contact their respective Depository Participant (DP), for the aforesaid purpose and follow the process advised by the DP.

Members will have the opportunity to cast their vote remotely on the business items as set out in notice of AGM, through remote e-voting. The manner of casting vote through remote e-voting/e-voting system including those by physical shareholders or by shareholders who have not registered their email ids shall be provided in notice of AGM. Copy of the AGM notice along with Annual Report for financial year 2024-25 and login details for voting will be sent in due course to all the members whose email addresses are registered with the Company/DP. Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulation, 2015, the Company will also be sending a letter providing the web-link, including the exact path of Annual Report to those shareholders whose email address is not registered with the Company/DP. Hard copies of full annual reports shall be dispatched to those shareholders, who request for the same.

The notice of 43rd AGM along with Annual Report will be made available on the website of the Company i.e. at www.eichermotors.com and on the website of stock exchanges viz. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The above information is also available on the said websites.

Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015, the Company has fixed Friday, August 01, 2025 as the Record Date for determining the eligibility of the shareholders for payment of Dividend of Rs. 70/- per equity share of face value of Re. 1/- each for the financial year ended March 31, 2025, as recommended by the Board at its meeting held on May 14, 2025 subject to approval by the shareholders. Shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the RTA (where shares are held in physical mode) to receive dividend directly into their bank account on the payout date. The cut-off date for determining the eligibility of the shareholder for attending and remote e-voting or e-voting at the AGM shall be Thursday, August 14, 2025.

For Eicher Motors Limited

Sd/-

Atul Sharma

Company Secretary &
Compliance Officer

Date : 10 July, 2025

Place : Gurugram, Haryana



EICHER MOTORS LIMITED

CIN : L34102DL1982PLC129877

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 1111, 11वां तल, अशोका एस्टेट,
प्लॉट नंबर 24, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001,

फोन : +91 11 41095173

कार्पोरेट कार्यालय : #96, सेक्टर-32, गुरुग्राम - 122001, हरियाणा

फोन : +91 124 4445070

ई-मेल : investors@eichermotors.com

वेबसाइट : www.eichermotors.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजनार्थ निर्धारित 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आयशर मोटर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के लागू प्रावधानों और तदधीन जारी सर्कुलर्स के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त, 2025 को अप. 01.00 बजे आईएसटी आयोजित की जानी निर्धारित है। एजीएम की सूचना, जिसमें शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित व्यवसाय मदें तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम से जुड़ने हेतु विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं, यथासमय प्रेषित की जाएगी।

सदस्यगण, जो भौतिक रूप में शेयर धारण किए हुए हैं और जिनके द्वारा अपनी ई-मेल आईडीज/बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनसे अनुरोध है कि एजीएम सूचना, वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने और रिमोट वोटिंग/ई-वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वतः लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात), कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पोर्टल <https://web.in.mpms.mufg.com/KYC/index.html> पर जाएं और अपनी ई-मेल आईडीज तथा अन्य विवरण पंजीकृत करवाएं। जो शेयरधारक डीमैट रूप में शेयर धारण किए हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रयोजन के लिए, अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") से सम्पर्क करें तथा डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करें।

सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय मदों पर अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से रिमोटली डालने का अवसर प्राप्त होगा। भौतिक शेयरधारकों द्वारा अथवा उन शेयरधारकों द्वारा, जिनके द्वारा अपनी ई-मेल आईडीज पंजीकृत नहीं करवाई गई हैं, रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट डालने का ढंग एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराया जाएगा। एजीएम सूचना की प्रति वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक रिपोर्ट और इस वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण सहित, उन सभी सदस्यों को यथासमय प्रेषित की जाएगी, जिनका ई-मेल पता कम्पनी/डीपी के पास पंजीबद्ध है। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, कम्पनी उन शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट के सटीक पाठ सहित वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र भी भेजेगी, जिनका ईमेल पता कम्पनी/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट्स की हार्ड कॉपीज उन शेयरधारकों को भेजी जाएंगी, जो उसके लिए अनुरोध करेंगे।

43वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट सहित कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.eichermotors.com तथा स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई और एनएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमानुसार पर उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त सूचना उक्त वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है।

एतद्वारा यह सूचना भी दी जाती है कि कम्पनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा, शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन किए जाने की शर्त के तहत, 14 मई, 2025 को आयोजित इसकी बैठक में संस्तुत किए गए अनुसार रु. 1/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के हर इक्विटी शेयर पर रु. 70/- के लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की ग्राह्यता निर्धारण के लिए शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 की तिथि रिकार्ड तिथि नियत की है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि लाभांश उसके भुगतान की तिथि को सीधा अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए अपना केवाईसी अपने डिपॉजिटरीज (यदि शेयर अभौतिक रूप में हैं) तथा आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में हैं) के पास अद्यतन करवा लें। एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के लिए शेयरधारक की ग्राह्यता निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि बृहस्पतिवार, 14 अगस्त, 2025 होगी।

वास्ते आयशर मोटर्स लिमिटेड

हस्ता./-

अतुल शर्मा

तिथि : 10 जुलाई, 2025

स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा

कम्पनी सचिव एवं

अनुपालन अधिकारी